

ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृहकार्य

कक्षा-नवमीं

1. कबीर दास, रसखान, प्रेमचन्द तथा ललद्यद में से किसी एक का जीवन परिचय फाइल में करें। (परियोजना कार्य)
2. उपसर्ग तथा प्रत्यय की परिभाषा व 10 उपसर्ग व सभी के 2-2 शब्द तथा 10 प्रत्यय व सभी के 2-2 शब्द लिखें।
3. समास की परिभाषा व प्रकार तथा सभी के 5-5 उदाहरण लिखें।
4. कोरोना संक्रमण के लक्षण व बचाव पर अपने मित्र के साथ बातचीत को संवाद लेखन शैली में लिखें।
5. पत्र लेखन -
स्थानांतरण प्रमाण पत्र
अनुशासन और व्यायाम की महत्ता बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखें।

ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृहकार्य कक्षा -आठवीं

1. अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखें और याद करें।
2. पाठ- असल धन और अच्छे पड़ोसी के गुण में से 5-5 मुहावरे ढूँढ कर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें।
3. उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखकर 10-10 शब्द लिखें।
4. पर्यावरण को स्वच्छ रखने और वृक्षारोपण पर बातचीत को संवाद शैली में लिखिए।
5. प्रदूषण समस्या और समाधान पर एक निबंध लिखें और याद करें।

नैतिक शिक्षा (Class VIII)

1. गीता के दोनों श्लोक कंठस्थ करें व दो - दो बार लिखें।
2. गायत्री मंत्र व शांति पाठ लिखकर अभ्यास करें।
3. आर्य समाज के 10 नियम व पाठ-1 से 4 तक के प्रश्नोत्तर याद करें।

ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृहकार्य कक्षा सातवीं

1. भारतीय कैलेंडर के अनुसार बारह महीनों के नाम लिखें और उस महीने में आने वाले त्यौहार, दिवस, जयंती या उत्सव के नाम तालिका बनाकर लिखें।
2. कोरोना संक्रमण पर अपने मित्र से हुई बातचीत को संवाद लेखन के रूप में लिखें।
3. मोबाइल फोन के लाभ व हानि पर एक अनुच्छेद लिखें।
4. हमारा भारत देश शीर्षक पर सुंदर लिखावट में निबंध लिखें व याद करें।
5. पाठ-1 से 3 तक प्रश्नोत्तर याद करें।

ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृहकार्य कक्षा -छठवीं

1. वर्षा ऋतु पर एक निबंध लिखें।
2. अभ्यास सागर में दिए छात्रवृत्ति हेतु पत्र याद करें और लिखें ।
3. सत्य की जीत पर आधारित एक कहानी लिखें।
4. अपने मनपसंद ऋतु पर स्वरचित कविता लिखें।
5. पुरस्कार पाठ में से 5 मुहावरे ढूँढ कर लिखें।
सभी कार्य कॉपी में करें।